



**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरिक प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

आश्विन 4, गुरुवार, शाके 1941–सितम्बर 26, 2019

Asvina 4, Thursday, Saka 1941–September 26, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

ORDER

Jaipur September 06, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8923 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Kushalgarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Kushalgarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement.

कार्यालय नगर पालिका कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा(राज.)

प्रारूप - क

वार्ड नंबर	विवरण
1	तहसील कार्यालय से पुर्व की और तहसील कार्यालय के लाईन के मकानों को लेते हुए नाका नम्बर एक तक एटीएम नाका नम्बर 01 से पश्चिम तरफ मकान को लेते हुए प्रकाश नाहटा के मकान तक इसमें सम्पुर्ण टिचर कालोनी एवं शास्त्री कालोनी शामिल है।
2	तहसील कार्यालय के सामने से नाका नम्बर 02 की लाईन के मकान श्री महेन्द्र चुण्डावत के मकान से रखबचन्द बरमेचा, बदा पान वाले की दुकान तक एवं बदा पान वाले की दुकान से पालिका दुकान व चक्की गली से मुकेश अग्रवाल के मकान के उत्तर की तरफ के सभी मकान, केलाश पिता गणपत प्रजापत के मकान से सलीम गोरी के मकान तक इन्द्रा कालोनी रोड की उत्तर की तरफ से सभी मकान, टिमेडा बस स्टेण्ड पालिका दुकान से टाउन हाल तक टिमेडा बस स्टेण्ड से हरिश पिता केसरीमल सोनी के मकान तक इन्द्र कालोनी रोड की उत्तर दक्षिण की सम्पुर्ण बस्ती ।

3	राजेन्द्र जोशी के मकान के जेल तक, जेल से विनोद बाबुलाल बारोड़ीया के मकान से पुर्वी भाग सभी मकान विरेन्द्र शाह के मकान तक, ममता पंचोली के प्लाट से भगवती सोनी के मकान तक/महीपाल प्रजापत के मकान से मनोहर लाल भाटिया के मकान से होते हुए बीएसएनएल कार्यालय से होते हुए अनुरूद्ध पण्डया के मकान तक / अनुरूद्ध पण्डया के मकान से तिलोत्तमा पण्डया के मकान तक / विजय राठोड के मकान से वर्धमान भटेवरा के मकान तक /जगदीश बेरागी के मकान से राजेन्द्र जोशी के मकान तक /अन्दर की सम्पुर्ण बस्ती एवं गलिया ।
4	विघुत विभाग कार्यालय से परमेश हरिजन के मकान तक /सोहन लाल प्रजापत के मकान से महेश सिसोदिया के मकान तक /महेश सिसोदिया के मकान से सीएमएचओ कार्यालय तक /विघुत विभाग कार्यालय से पुलिस चैकी होते हुए रणजीत भटेवरा के मकान होते हुए असगर टेलर के मकान से होते हुए शिवलाल डामोर के मकान तक /परमेश हरिजन के मकान से हरेन्द्र नेयर के मकान होते हुए पुलिस चौकी की तक रणजीत भटेवरा से विनोद गुप्ता के मकान तक /शिवलाल डामोर के मकान से विनोद गुप्ता के मकान तक/ सुरेश नेयर के मकान से पिछे की नई आबादी उत्तर पश्चिम भाग के मकान होते हुए सीएमएचओ ऑफिस तक ।
5	कन्हैयालाल बसरे के मकान से थान्दला रोड पर पश्चिम भाग /पंचायत समिति क्वार्टर तक /कन्हैयालाल बसरे से मालजी कलावा के दोनों तरफ के मकान तक/ पुनमचन्द वेस्ता कटारा से मनीष निमा से संजय डामोर के मकान होते हुए सुरेश हरिजन के मकान तक /ंकार सिंह के मकान से कालु भाई कलावा के मकान तक दोनों तरफ एवं पिछे की सम्पुर्ण नई आबादी ।
6	नगरपालिका की दुकान श्रीमती हंसा को किराये से दी गई है से नागनाथ मन्दिर तक इसमें रोड के सामने के मकान की लाईन शामिल नहीं है सिविल लाईन हामिद भाई ड्राईवर के मकान से लक्ष्मी जी मन्दिर तक पुनः भरत सिंह जी के खण्डर मकान के देवेन्द्र सिंह कंसारा के मकान तक। इसमें हेमेन्द्र सिंह झाला वाली रोड के दोनों तरफ के मकानों को शामिल करते हुएं श्रीमती मरियम बाई के मकान तक /इसमें दूर्गा टाकिज के पिछे की बस्ती शामिल है /पुनः गोविन्द लाल झाकरोद के मकान से केसरबाई के मकान तक इसमें सामने की लाईन के मकान शामिल न ही है /बुदला गली शामिल है।
7	राजकीय माध्यमिक विद्यालय भवन (नोहरा) के पुराने भवन दक्षिण से वर्धमान पड़ीयार के प्लाट तक व इसमें पिछे पूर्व की और सिचाई विभाग के गोदाम को लेते हुऐ पूराना सिनेमा घर से गांधी मार्ग पर श्री हिरालाल डिलर के मकान तक इसमें भोईवाडा को लेते हुऐ पश्चिम में श्री विनोद सोनी के मकान के उत्तर की और नई आबादी के दोनों तरफ अस्पताल के क्वार्टर शामिल है।

8	श्री सत्यनारायण दमामी के मकान से रोड के टोनो तरफ के मकानों कों शामिल करते हुए , जगदीश बेरागी के मकान तक , पुनः बिहारी मन्दिर से सोहनलाल भईडा के मकान तक /इसमें सामने वाली लाईन के मकान शामिल नहीं है/ इसमें श्री महेश जोशी के मकान से दाडमचन्द दोसी के मकान तक का क्षेत्र शामिल है।
9	श्री तुलसीराम के मकान से व सामने की लाईन मे कोवालिया की दूकान से टोनो तरफ के मकानों को शामिल करते हुए अली हुसैन की दूकान तक व सामने की लाईन में राजेन्द्र कुमार पंचोली के मकान तक /पुनः अमृत भाई की दुकान से कान्तिलाल तलेसरा की दुकान तक / इसमें सामने के मकानों की लाईन शामिल नहीं है । पुनः जोशी गली से कान्तिभाई तलेसरा की दुकान की लाईनवाले मकानों शामिल करते हुए लोकेन्द्र जी पण्डित के मकान तक / मणिभद्र किरणा स्टोर तक /इसमें गादिया गली के मकान शामिल हैं /पुरानी एसबीआई भवन वाली लाईन भी इसमें शामिल है।
10	श्री पवन चौकलिया की दूकान से धीरावत चौकलिया (चौकलिया गली) दोनों तरफ के मकान शामिल हैं पुनः दर्जी नोहरा से अहमद हुसैन के मकान तक। जिसमें दर्जी गली शामिल है पुनः अब्दुल हुसैन गुलाम अली की दुकान से निरंजना शाह के मकान तक / पुनः सुखलाल निमा घडी वाले की दुकान से महेन्द्र तलेसरा की दुकान तक, पनुः सुखलाल निमा की दुकान से रामजी मन्दिर तक जिसमें ताज मोहम्मद गोरी वाली लाईन के मकान शामिल है पुनः रामजी मन्दिर के पिछे के मकान इसमें पुरोहित गली, हरिकान्तजी सक्सेना , दयाराम के मकान तक तथा ऋषभदेव मन्दिर तक का क्षेत्र शामिल है।
11	लक्ष्मी जी मन्दिर से सामने मन्दिर से नगीन पड़ीयार के मकान होते हुए जयन्तिलाल कोवालिया के मकान तक /जयन्तिलाल कोवालिया के मकान से गवली गली /दक्षिण भाग रमेश चौहान के मकान तक /रमेश चौहान के मकान से संत रेदास मन्दिर से नगीन कलाल के मकान तक बीच की गली शामिल /महेश चौहान के मकान से तुलसी राम का मकान होते हुए सम्पुर्ण सांगरीफला सहित दक्षिण भाग सम्पुर्ण अम्बेडकर एवं भोई समाज बस्ती ।
12	विरेन्द्र जैन के मकान से विद्यानिकेतन प्राथमिक विद्यालय होते हुए नवकार गार्डन तक /बसन्ती बाई के मकान से लुणाभाई के मकान तक /लुणाभाई के मकान से हिरालाल के मकान तक अन्दर की सारी गलिया सम्मिलित /हिरालाल के मकान से शिवम्भरसिंहजी के मकान होते हुए मुकेश गांधी के मकान तक /सोमनाथ मन्दिर के पास बस्ती शामिल है / मुकेश गांधी मकान से विरेन्द्र जैन के मकान तक ।

13	हेमन्त दशरथ पडियार के मकान से बीसपंथी मन्दिर तक, सुरेन्द्र पिण्डारमा के मकान से नरेन्द्र लुणजी के मकान तक, नरेन्द्र लुणजी के मकान से हुकमीचन्द का मकान लेते हुए निमा गली दोनों तरफ कान्तिलाल कोठारी के मकान से सुरेन्द्र पिण्डारमा के मकान तक, निरंजन शाह के मकान से संत भवन होते हुए खुशपाल शाह के मकान से तेली गली।
14	जयेश नीमा के मकान से कृष्ण कुटीर तक तथा कृष्ण कुटीर से चिरंजीलाल खाब्या का मकान लेते हुए रमेश चन्द्र त्रिवेदी के मकान तक /जिसमें तुराबअली का मकान शामिल है, साथ ही विनोद शाह वाली गली , डीके साहब का मकान शामिल है, साथ ही रमेश त्रिवेदी के मकान के सामने वाले मकान इसमें शामिल है इस क्षेत्र के इश्वरलाल जोशी , लक्ष्मीकान्त सक्सेना के मकान शामिल नहीं है । पुनः रजनीकान्त खाब्या के मकान से जिसमें पास वाली गली स्थित मकान शामिल है पुनः पुनः रामशंकर पण्डया के मकान को लेते हुए माणक मां की गली तथा सरदार पटेल मार्ग पर श्री मीश्रीमल गादिया के मकान से तुलजाशंकर के मकान तक, जिसमें सामने वाली लाईन के मकान शामिल है पुनः गांधी चौक में स्थित बीजेपी कार्यालय, नटवर भाई चक्की वाले के मकान को लेते हुए समरथमल नाहटा , सुन्दर लाल जोशी के मकान तक एवं भुरालाल जोशी के मकान तक ।
15	श्री माणक लाल नाहटा के मकान से उत्तर की ओर महल तक , वापस श्री रूपचन्द्र नाई के मकान से गांधी चौक से श्री ताहेरअली के मकान तक वहा से पेलेस रोड पर निरंजन बाघ के मकान तक इसमें पुरा बोहरा मोहल्ला शामिल है
16	सेफुद्दीन दरवाजावाला के मकान से प्रदीप पिण्डारमा मकान तक, प्रदीप पिण्डारमा से श्रेयस भट्ट के मकान तक, सामने लाईन के मकान शामिल नहीं है। व्यास गली शामिल है रगोली चौहान के मकान से पाण्डवासाथ स्थित नगरपालिका दुकान तक, हिरण नदी के सामने वर्धमान गादिया का मकान शामिल । नगीन पड़ीयार के मकान से राजु सिंधी के मकान होते हुए शरीफ खाँ का मकान होते हुए नगीन पड़ीयार के मकान तक, अन्सार के मकान से कालु लालहींग के मकान तक।
17	आजाद खाँ के मकान से शंकर अड़ के मकान तक, रसीद सिद्दीकी के मकान से कोदर जोति के मकान तक , पिछे पुर्व भाग की गलियों के सभी मकान शामिल , अम्बा के मकान से कडवी बाई के मकान होते हुए मीठु गुदा के मकान तक आमने- सामने पुरी पाण्डवासाथ बस्ती ।
18	जितेन्द्र अरविन्द बाघ के मकान से समाट झाला के मकान होते हुए जल्लालुद्दीन शेख के मकान तक लीला पड़ीयार के मकान से ईश्वरलाल राव के मकान होते हुए भरत महेश निगम से रतन के मकान होते हुए जमादार गली आमने- सामने ।

19	इन्दु निगम के मकान से सुन्दर सुराणा के मकान से होते हुए गणेश लाल चौपडा तक , सुर्यनारायण सिंह राठोड के मकान से होते हुए अणु वाटिका तक , रखब चन्द चौरड़ीया के मकान से होते हुए करणीसिंह राठोड के मकान होते हुए कृष्णा सिस्टर के मकान तक।
20	विपिन पान की दुकान से विमल लुणावत के मकान होते हुए राजेन्द्र गादिया के मकान तक सामने के मकान शामिल, अजय निगम के मकान से जगदीश चौहान के मकान तक , जफरुल्लाह खां के मकान से वाटर वक्रस होते हुए बोहरा समाज की दुकान तक, आमने- सामने व बस स्टेण्ड की सम्पूर्ण आबादी व गलिया ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका कुशलगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।